



दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन



उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई- लालगंज जिला- आजमगढ़



दिनांक- 16/09/2022



अभिषेक कुमार

ब्लॉक मिशन प्रबंधक

कौशल एवं रोजगार/नॉन फार्म

## अभिव्यक्ति- संदेश अपनो को



आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गौरवपूर्ण आठ वर्ष पूरे किए जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे किए वहीं इससे पूर्व बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति BRLPS जीविका बिहार सरकार में आज ही के दिन 16/09/2014 को कैमूर जिले में योगदान करते हुए चार वर्ष पूरे किए थे।

मेरा मानना है कि नारी सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पहल पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्ययोजना है जहाँ समाज के मुख्य धारा से पिछड़े, निर्धन ग्रामीण समुदाय को प्रक्रियाबद्ध तरीके से संगठित कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध कर स्वालंबन, स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाता है। महिला उत्थान संबंधित यह कार्यक्रम आज पूरे भारत के समस्त राज्यों में संचालित है। आठ वर्षों के कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिले एवं कई ब्लॉकों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि गरीबी उन्मूलन संबंधित इस मिशन में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सामाजिक सेवा, मानव सेवा सभी सेवाओं में सर्वोत्तम है। एक वे साहसी लोग हैं जो घर से अपना धन एवं समय बर्बाद करके सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्यों में दिन रात लोगों के मदद करने में जुटे रहते हैं और एक हम मिशन कर्मी हैं जो समाज सेवा कार्यों के एवज में सरकार जीविकोपार्जन हेतु पारिश्रमिक धनराशि मुहैया कराती है यह सोने पर सुहागा से कम नहीं है।

हम अपने आठ वर्षों के लंबे कार्यकाल के अनुभवों के दरमियाँ यह महसूस किया कि ग्रामीण समुदायों को आर्थिक, सामाजिक स्वालंबन से पहले बौद्धिक उत्थान पर बल देने की जरूरत है कारण की क्षमतावर्धन के उपरांत जब वैचारिक शक्ति मजबूत होगा तो आर्थिक सशक्तिकरण में मजबूती आएगी फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था भी स्वतः मजबूत होगा और समाज के मुख्य धारा से जुड़ाव में सहूलियत होगी। यही सोचकर हमने पिछले वर्ष दिव्य प्रेरक कहानियाँ वैचारिक चेतना मंच का स्थापना किया जहाँ मेरे द्वारा किये गए सामाजिक साहित्यिक कार्यों को देखा जा सकता है तथा कार्यालय समयावधि के पश्चात लोक मंगल से संबंधित खुद का एवं अन्य दूसरे विद्वानों का विचार संग्रहित करता हूँ ताकि विचारों के आदान-प्रदान पठन से बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाए क्योंकि साहित्य पठन में वह शक्ति है जो मानसिक मनोवृत्ति में बदलाव लाते हुए हसरते, उमंग, उम्मीदों को चाँद से स्पर्श करा सकती है और जनसमुदायों को मनोवैज्ञानिक मनन-चिंतन से आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त, मजबूत भी कर सकती है।

माता-पिता, गुरुजनों के चरणों में शीश नवाते हुए उनके आशीर्वाद के लालायित हूँ। सभी सहकर्मी भाई बहन को धन्यवाद अर्पित करते हुए आभार प्रकट करता हूँ मिशन के समस्त आदरणीय उच्चाधिकारी महोदय को एवं वंदन करता हूँ युग पुरुष परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और विश्व के सबसे प्रभावशाली लोकप्रिय व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को।

(अभिषेक कुमार)

दिव्य प्रेरक कहानियाँ

Regd. No.- BR-03-0001737

साहित्य विधा पठन एवं ई-प्रकाशन केंद्र

50+ कैटेगरी में सामाजिक बिन्दुओं पर ब्लॉग पोस्ट पढ़ने एवं लिखने का विकल्प

आत्मीयता मानवता के सर्वोच्च बिंदु पर पथ प्रदर्शक करने वाला मंच

